



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 फाल्गुन 1940 (श०)
(सं० पटना 430) पटना, सोमवार, 18 मार्च 2019

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना
18 मार्च 2019

सं० एम-1-005/2019-15— बिहार विधान सभा, 2019 के उप निर्वाचन के अवसर पर 237-नवादा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-100/पूर्व अनु-1/बिहार-वि.स./1/2019 दिनांक 18.03.2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रवीण कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/18 मार्च 2019/27 फाल्गुन, 1940 (शक)

सं० 100 पूर्व-अनु०-1/बिहार-वि.स./1/2019—यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 237- नवादा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री राजबल्लभ प्रसाद को संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(ड.) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत निरहृत किये जाने के कारण दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 से एक स्थान रिक्त हो गया है: और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप निर्वाचन कराया जाना है,
3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 237-नवादा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 27 मई, 2019 (सोमवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 25 मार्च, 2019 (सोमवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 26 मार्च, 2019 (मंगलवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 28 मार्च, 2019 (बृहस्पतिवार) |
| (घ) | वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: | 11 अप्रैल, 2019 (बृहस्पतिवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 27 मई, 2019 (सोमवार) |

नियत करता है; और

- (इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
आनन्द कुमार पाठक,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Notification

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/

Dated 18th March 2019/ 28 Phalguna 1940 (SAKA)

No. 100/ES-I/BR-LA/2019—WHEREAS, the seat of **Sh. Rajballabh Prasad**, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from **237-Nawada** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **15th December, 2018** due to disqualification under the provision laid down under Article 191(1)(e) of the Constitution of India read with Section 8 of the Representation of the People Act, 1951, and;

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;
3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby-
 - (A) Calls upon the said **237-Nawada** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 27th May, 2019 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State
 - (B) appoints, with respect to the said election:-
 - (a) the 25th march, 2019 (Monday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 26th march, 2019 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 28th march, 2019 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 11th April 2019 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 27th May, 2019 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and
 - (C) fixes the hours from 7.00 A.M. To 6.00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By Order,

A. K. PATHAK,
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 430-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>